



## राजस्थान में मध्यप्रदेश से आ रहा है नकली खाद, खाद विक्रेता जाएगा जेल

**- नकली खाद बेचने वाली फर्म के खिलाफ मामला दर्ज, नकली खाद के 50 बैग जब्त, दुकान सीज**

झालावाड़. राजस्थान सरकार अग्नि पथ के विरोध में उलझी पड़ी है और अधिकारी सुस्ती काट रहे हैं, ऐसे में नकली खाद बेचने वाले मौज कर रहे हैं। प्री मानसून बारिश के बाद बुवाई तेज होते ही नकली खाद बेचने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। राजस्थान के झालावाड़, बारां और कोटा जिले में मध्यप्रदेश से नकली खाद बेचा जा रहा है। झालावाड़ में तो कृषि विभाग ने अब तक नकली खादके आधा दर्जन मामले पकड़े हैं, जबकि कोटा और बारां में विभाग सोया हुआ है। नकली खाद बेचने वाले जैविक खाद के नाम पर मिट्टी बेच रहे हैं।



**नकली खाद के 50 कट्टे जब्त कर दुकान सीज की**

डग में शुक्रवार शाम कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खाद बीज की दुकान पर कार्रवाई करते हुए नकली खाद के 50 कट्टे जब्त कर दुकान सीज की। कृषि पर्यवेक्षक सुमेर झुंझसह ने बताया कि तिसाई निवासी व्यक्ति द्वारा डग स्थित श्रीराम कृषि सेवा केन्द्र से गुरुवार को 5 बैग डीएपी लिया जिस पर इफको ब्रांड का छाप था। कृषक द्वारा शुक्रवार उसे खेत में डालने पर वह खाद नकली प्रतीत हुई। इसे लेकर उसने पुलिस विभाग व कृषि विभाग को सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए सहायक कृषि अधिकारी लेखराज गुर्जर व सुमेर झुंझसह द्वारा तत्काल राजेश विजय सहायक निदेशक कृषि भवानीमंडी को दूरभाष पर सूचना दी व तुरन्त कार्रवाई करते हुए कृषि सेवा केन्द्र से 50 बैग व साथ ही कई तरह की एक्सपायरी दवाइयां व बीज मिले। सहायक निदेशक कृषि भवानीमंडी द्वारा कुल 5 नमूने आहरित कर किए। कार्रवाई के दौरान सहायक कृषि अधिकारी लेखराज गुर्जर, सुमेर झुंझसह, हिमांशु गोयल, राजेन्द्र सैनी, कन्हैया लाल वर्मा उपस्थित रहे।

Source: <https://www.patrika.com/jhalawar-news/fake-fertilizer-is-coming-from-madhya-pradesh-in-rajasthan-fertilizer-7613654/>